

प्रिय ग्राहक,

आपको सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन कनाडा (सीआईसी) द्वारा निष्क्रिय क्षय रोग (टीबी) के लिए चिकित्सा निगरानी में रखा गया है।

अब तक, आपने टीबी कार्यक्रम में सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचारिका से बात कर ली होगी जिन्होंने आपको निम्नलिखित कार्य करने के लिए बताया होगा:

1. डॉक्टर से कब मिलना है:

- अगर आप ऑटारिओ हेल्थ इन्श्योरेंस प्लान (ओहिप) के पात्र हैं, तो ओहिप कार्ड प्राप्त होने तक आप डॉक्टर से मुलाकात का समय निश्चित करने के लिए 90 दिन प्रतीक्षा कर सकते हैं। इस पैकेज में मिलने वाली फिज़िशन रिपोर्ट कृपया अपने डॉक्टर से संपूर्ण भरवाएं।
- अगर आप ओहिप के पात्र नहीं हैं, तो मुलाकात का समय यथाशीघ्र तय कराएं। इस पैकेज में मिलने वाली फिज़िशन रिपोर्ट कृपया अपने डॉक्टर से संपूर्ण भरवाएं। इस मुलाकात के लिए आपको भुगतान करना होगा।
- अगर आपके सीआईसी पत्र पर अरजन्ट- (तत्काल)- की मुहर लगी है अथवा आपको टीबी के लक्षण अनुभव हो रहे हैं, जिनमें रात्रि प्रस्वेद, बुखार, खांसी या खांसी में खून आना शामिल है, तो पील पब्लिक हेल्थ को कॉल करें तथा इस पैकेज के अंतर्गत डॉक्टर से तुरंत मिलें। इस मुलाकात के लिए आपको भुगतान करना होगा।

2. डॉक्टर से मिलने के बाद क्या करना है:

- समस्त दस्तावेजों की एक प्रति रखें।
- संपूर्ण भरी हुई फिज़िशन रिपोर्ट छह माह के भीतर भेजें अन्यथा सीआईसी को सूचित किया जाएगा और आपकी फाइल बंद कर दी जाएगी। फैंक्स या डाक यहाँ भेजें:

फैंक्स

905-565-8428

डाक

Peel Public Health, TB Control Program 5th Floor
7120 Hurontario St.
PO Box 630 ROP Streetsville
Mississauga, ON L5M 2C1

अगर आपके घर का पता बदलता है या आप ऑटारियो छोड़ जाते हैं, तो पील पब्लिक हेल्थ से इस नंबर पर संपर्क करें 905-791-7800, ext. 2796 अपने किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए इस पैकेज में समाविष्ट प्रश्न पत्रक या peel-stoptb.ca का संदर्भ लें।

भवदीय,

पील पब्लिक हेल्थ
टीबी कन्ट्रोल प्रोग्राम